



(imageless edition)


Level 2

Hindi / English

Nandani

Ingrid Schechter

Ingrid Schechter



Tingi and the Cows

टिंगी और उसकी गायें



香港故事書

global-asp.github.io/storybooks-hongkong
टिंगी और उसकी गायें / Tingi and the Cows

Written by: Ingrid Schechter
Illustrated by: Ingrid Schechter
Translated by: Nandani (hi)


This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by 香港's many languages. In an effort to provide children's stories in



This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 3.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



टिंगी अपनी दादी माँ के साथ रहता था।


...


Tingi lived with his grandmother.

He used to look after the cows with her.

...

वह उनके साथ गायों की देख-भाल करता था।





एक दिन सिपाही आए।


...

One day the soldiers came.

They crept home very quietly.

...


वे चुपचाप अपने घर चले गए।




They took the cows away.

...

वे अपने साथ गायों को ले गए।






टिन्गी और उसकी दादी माँ भागे और छुप गए।

...


Tingi and his grandmother ran away and hid.



सुरक्षित समय पर टिन्गी और उसकी दादी माँ बाहर निकल आए।

...


When it was safe, Tingi and his grandmother came out.



वे रात तक झाड़ियों में छिपे रहे।

...


They hid in the bush until night.



उनमें से एक सिपाही ने उसके ऊपर धीरे से खिचा, लेकिन वह चुप रहा।

...


One of the soldiers put his foot right on him, but he kept quiet.



वे सिपाही फिर से वापस आ गए।

...

Then the soldiers came back.



दादी माँ ने टिंगी को पत्तों के नीचे छिपा दिया।

...

Grandmother hid Tingi under the leaves.